

Roll. No.

Question Booklet Number

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

B.Com. (SEM.-VI) (NEP) (SUPPLE.) EXAMINATION, 2024-25

COMMERCE

(Financial Institutions and Market)

Paper Code

C	0	1	0	6	0	4	T
---	---	---	---	---	---	---	---

**Question Booklet
Series**

A

Time : 1 : 30 Hours

Max. Marks : 75

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 100 questions. Examinee is required to answer 75 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.
4. Four alternative answers are mentioned for each question as - A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the correct / answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

(Remaining instructions on last page)

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को 75 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, उसे तुरन्त बदल लें।
4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर- A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से सही उत्तर छानना है। उत्तर को OMR उत्तर-पत्रक में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

- | | |
|--|---|
| 1. _____ helps to establish a link between savers and investors. | 1. बचतकर्ता तथा निवेशक के मध्य लिंक स्थापित करता है। |
| (A) Marketing | (A) विपणन |
| (B) Financial market | (B) वित्तीय बाजार |
| (C) Money market | (C) मुद्रा बाजार |
| (D) Market | (D) बाजार |
| 2. IPO stands for : | 2. IPO से तात्पर्य है : |
| (A) Indian Public Offering | (A) इंडियन पब्लिक ऑफरिंग |
| (B) Institutional Public Offer | (B) इंस्टीट्यूशनल पब्लिक ऑफर |
| (C) Initial Public Offering | (C) इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग |
| (D) None of the above | (D) उपरोक्त में से कोई नहीं |
| 3. _____ deals with new securities. | 3. में नई प्रतिभूतियों का लेन-देन होता है। |
| (A) Money market | (A) मुद्रा बाजार |
| (B) Primary market | (B) प्राथमिक बाजार |
| (C) Secondary market | (C) द्वितीयक बाजार |
| (D) None of the above | (D) उपरोक्त में से कोई नहीं |
| 4. NSE, BSE are examples of : | 4. NSE तथा BSE के उदाहरण हैं। |
| (A) Primary market | (A) प्राथमिक बाजार |
| (B) Money market | (B) मुद्रा बाजार |
| (C) Secondary market | (C) द्वितीयक बाजार |
| (D) None of the above | (D) उपरोक्त में से कोई नहीं |
| 5. Zero coupon bonds are also a type of : | 5. जीरो कूपन बॉड का ही एक प्रकार है। |
| (A) Call money | (A) कॉल मनी |
| (B) Treasury bill | (B) ट्रेजरी बिल |
| (C) Commercial paper | (C) वाणिज्यिक पत्र |
| (D) None of the above | (D) उपरोक्त में से कोई नहीं |

6. _____ is also called as trade bill.

- (A) Commercial bill
- (B) Treasury bill
- (C) Commercial paper
- (D) None of the above

7. Stock Exchange is a type of :

- (A) Primary market
- (B) Money market
- (C) Secondary market
- (D) None of the above

8. Bonus issue is an event of :

- (A) Primary market
- (B) Secondary market
- (C) Money market
- (D) None of the above

9. Treasury bill are issued by :

- (A) Big companies
- (B) Commercial banks
- (C) RBI
- (D) All of the above

10. SENSEX is an index of _____ companies.

- (A) 100
- (B) 50
- (C) 30
- (D) 60

6. को व्यापारिक बिल भी कहा जाता है।

- (A) वाणिज्यिक बिल
- (B) ट्रेजरी बिल
- (C) वाणिज्यिक प्रपत्र
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

7. स्टॉक एक्सचेंज एक प्रकार का है।

- (A) प्राथमिक बाजार
- (B) मुद्रा बाजार
- (C) द्वितीयक बाजार
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

8. बोनस निर्गमन के अंतर्गत आता है।

- (A) प्राथमिक बाजार
- (B) द्वितीयक बाजार
- (C) मुद्रा बाजार
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. ट्रेजरी बिल द्वारा जारी किया जाता है।

- (A) बड़ी कम्पनियों
- (B) वाणिज्यिक बैंकों
- (C) रिज़र्व बैंक
- (D) उपरोक्त सभी

10. SENSEX कम्पनियों का सूचकांक है।

- (A) 100
- (B) 50
- (C) 30
- (D) 60

- | | |
|--|--|
| 11. IPO is an instrument of : | 11. IPO का एक उपकरण है। |
| (A) Primary market | (A) प्राथमिक बाजार |
| (B) Secondary market | (B) द्वितीयक बाजार |
| (C) Money market | (C) मुद्रा बाजार |
| (D) None of the above | (D) उपरोक्त में से कोई नहीं |
| 12. NFO stands for : | 12. NFO से तात्पर्य है : |
| (A) New Financial Offering | (A) न्यू फाइनेन्शियल ऑफरिंग |
| (B) New Fund Offering | (B) न्यू फण्ड ऑफरिंग |
| (C) National Fund Offering | (C) नेशनल फण्ड ऑफरिंग |
| (D) None of the above | (D) उपरोक्त में से कोई नहीं |
| 13. _____ is the regulation of capital market. | 13. पूँजी बाजार का नियामक है। |
| (A) RBI | (A) RBI |
| (B) SBI | (B) SBI |
| (C) SEBI | (C) SEBI |
| (D) Stock Exchange | (D) स्टॉक एक्स्चेंज |
| 14. NFO is related to : | 14. NFOसे सम्बन्धित है। |
| (A) Share | (A) अंश |
| (B) Mutual funds | (B) म्यूचुअल फंड |
| (C) Bonds | (C) बॉन्ड |
| (D) Debenture | (D) ऋणपत्र |
| 15. _____ is generally issued by highly reputed companies. | 15. प्रतिष्ठित कम्पनियों द्वारा चालू पूँजी की आवश्यकता को पूरा करता है। |
| (A) Call money | (A) कॉल मनी |
| (B) Treasury bill | (B) ट्रेजरी बिल |
| (C) Commercial paper | (C) वाणिज्यिक प्रपत्र |
| (D) Commercial bill | (D) वाणिज्यिक बिल |

16. OTCEI stands for :
- (A) Over-The-Commodity Exchange of India
- (B) Over-The-Counter Exchange of India
- (C) Over-The-Cover Exchange of India
- (D) None of the above
17. The maturity period of _____ is upto 14 days.
- (A) Treasury bill
- (B) Commercial bill
- (C) Call money
- (D) Commercial paper
18. _____ is also known as dalal street.
- (A) BSE
- (B) NSE
- (C) OTCEI
- (D) None of these
19. New mutual funds issued as :
- (A) IPO
- (B) NFO
- (C) Private placement
- (D) All of the above
20. ADR stands for :
- (A) American Depository Receivable
- (B) American Development Receipts
- (C) American Depository Receipts
- (D) None of the above

16. OTCEI से तात्पर्य है :
- (A) ओवर-द-कमोडिटी इक्सचेंज ऑफ इण्डिया
- (B) ओवर-द-काउंटर इक्सचेंज ऑफ इण्डिया
- (C) ओवर-द-कवर इक्सचेंज ऑफ इण्डिया
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
17. की परिपक्वता अवधि 14 दिनों तक होती है।
- (A) ट्रेजरी बिल
- (B) वाणिज्यिक बिल
- (C) कॉल मनी
- (D) वाणिज्यिक प्रपत्र
18. को दलाल स्ट्रीट भी कहा जाता है।
- (A) BSE
- (B) NSE
- (C) OTCEI
- (D) उपरोक्त में कोई नहीं
19. नए म्यूचुअल फंड के द्वारा जारी किए जाते हैं।
- (A) IPO
- (B) NFO
- (C) प्राइवेट प्लेसमेंट
- (D) उपरोक्त सभी
20. ADR से तात्पर्य है :
- (A) अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीवेबल
- (B) अमेरिकन डिवेलपमेण्ट रिसिप्ट
- (C) अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

21. Zerodha and Groww are examples of :

- (A) Stock exchange
- (B) Online investment portal
- (C) Investment companies
- (D) None of the above

22. Headquarter of SEBI is at :

- (A) New Delhi
- (B) Mumbai
- (C) Kolkata
- (D) Chennai

23. SIP investments cannot be :

- (A) Monthly
- (B) Quarterly
- (C) Lumpsum
- (D) Annually

24. Best investment option for small investor is :

- (A) Share
- (B) Bonds
- (C) Debenture
- (D) Mutual funds

25. Nifty is an Index of top _____ companies in a stock exchange.

- (A) 50
- (B) 30
- (C) 60
- (D) 100

21. ज़ारोधा एवं ग्रो के उदाहरण हैं।

- (A) स्टॉक एक्सचेंज
- (B) आनलाइन निवेश पोर्टल
- (C) निवेश कम्पनियां
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

22. SEBI का मुख्यालय में स्थित है :

- (A) नई दिल्ली
- (B) मुम्बई
- (C) कोलकाता
- (D) चेन्नई

23. SIP में निवेश नहीं हो सकता ।

- (A) मासिक
- (B) तिमाही
- (C) एकमुश्त
- (D) वार्षिक

24. छोटे निवेशकों के लिए उपर्युक्त निवेश विकल्प है :

- (A) अंश
- (B) बांड्स
- (C) ऋणपत्र
- (D) म्यूचुअल फंड

25. निफ्टी एक स्टॉक एक्सचेंज में शीर्ष कम्पनियों का सूचकांक है।

- (A) 50
- (B) 30
- (C) 60
- (D) 100

- | | |
|---|---|
| <p>26. SEBI function includes :</p> <p>(A) Protective functions only</p> <p>(B) Regulatory functions only</p> <p>(C) Development functions only</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>26. SEBI के कार्यों में सम्मिलित है :</p> <p>(A) केवल सुरक्षात्मक कार्य</p> <p>(B) केवल नियामक कार्य</p> <p>(C) केवल विकासात्मक कार्य</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> |
| <p>27. Share, debenture and bonds are trade in :</p> <p>(A) Money market</p> <p>(B) Capital market</p> <p>(C) Commodity market</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>27. अंश, ऋणपत्र और बांड्स का व्यापार होता है :</p> <p>(A) मुद्रा बाजार में</p> <p>(B) पूँजी बाजार में</p> <p>(C) कमोडिटी बाजार में</p> <p>(D) उपरोक्त में कोई नहीं</p> |
| <p>28. Treasury bills issued for :</p> <p>(A) 91 days only</p> <p>(B) 182 days only</p> <p>(C) 364 days only</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>28. ट्रेजरी बिल निर्गमित होते हैं :</p> <p>(A) केवल 91 दिनों के लिए</p> <p>(B) केवल 182 दिनों के लिए</p> <p>(C) केवल 364 दिनों के लिए</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>29. Existing shares and debentures are purchased and sold in :</p> <p>(A) Money market</p> <p>(B) Primary market</p> <p>(C) Secondary market</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>29. पुराने अंश एवं ऋणपत्र खरीदे और बेचे जाते हैं :</p> <p>(A) मुद्रा बाजार में</p> <p>(B) प्राथमिक बाजार में</p> <p>(C) द्वितीयक बाजार में</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>30. _____ is said to be a Barometer of an economy.</p> <p>(A) Banks</p> <p>(B) RBI</p> <p>(C) Stock exchange</p> <p>(D) SEBI</p> | <p>30. को अर्थव्यवस्था को बैरोमीटर कहा जाता है।</p> <p>(A) बैंकों</p> <p>(B) RBI</p> <p>(C) Stock exchange</p> <p>(D) SEBI</p> |

31. BSE stands for :
- (A) Bharat Stock Exchange
(B) Bhartiya Stock Exchange
(C) Bombay Stock Exchange
(D) None of the above
32. Factor affecting investing decision are :
- (A) Cost
(B) Return
(C) Risk
(D) All of the above
33. A _____ stores stocks in digital form .
- (A) Trading account
(B) Demat account
(C) Digilocker
(D) Bank account
34. "Offer for sale" is a mode used in :
- (A) Primary market
(B) Secondary market
(C) Money market
(D) Commodity market
35. NAV in mutual funds means :
- (A) Net Acquired Value
(B) Net Asset Value
(C) New Asset Value
(D) New Asset Valuation

31. BSE का तात्पर्य है।
- (A) भारत स्टॉक एक्सचेंज
(B) भारतीय स्टॉक एक्सचेंज
(C) बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
32. निवेश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक हैं :
- (A) लागत
(B) प्रतिफल
(C) जोखिम
(D) उपरोक्त सभी
33. एक स्टॉक को डिजीटल रूप में रखता है।
- (A) ट्रेडिंग अकाउंट
(B) डिमैट अकाउंट
(C) डिजीलॉकर
(D) बैंक अकाउंट
34. "ऑफर फॉर सेल" में प्रयोग आने वाला माध्यम है।
- (A) प्राथमिक बाजार
(B) द्वितीयक बाजार
(C) मुद्रा बाजार
(D) कोमोडिटी बाजार
35. म्यूचुअल फंड में NAV से तात्पर्य है :
- (A) नेट अक्वार्ड वैल्यू
(B) नेट असेट वैल्यू
(C) न्यू असेट वैल्यू
(D) न्यू असेट वैल्यूएशन

36. NASDAQ is a/an _____ stock exchange.

- (A) American
- (B) Japanese
- (C) Chinese
- (D) German

37. GDR stands for :

- (A) Global Development Receipts
- (B) German Deposition Receipts
- (C) Global Depository Receipts
- (D) None of the above

38. Call money related to _____.

- (A) Primary market
- (B) Secondary market
- (C) Money market
- (D) None of the above

39. SEBI stands for _____.

- (A) Shares Exchange Board of India
- (B) Shares Exchange Board Institution
- (C) Security Exchange Board Institution
- (D) Securities and Exchange Board of India

40. SENSEX is the Index of :

- (A) BSE
- (B) OTCEI
- (C) NSE
- (D) None of the above

36. NASDAQ से सम्बन्धित स्टॉक एक्सचेंज है।

- (A) अमेरिका
- (B) जापान
- (C) चीन
- (D) जर्मनी

37. GDR से तात्पर्य है :

- (A) ग्लोबल डेवलपमेन्ट रिसिप्ट
- (B) जर्मन डिपोजिशन रिसिप्ट
- (C) ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

38. काल मनी से सम्बन्धित है।

- (A) प्राथमिक बाजार
- (B) द्वितीयक बाजार
- (C) मुद्रा बाजार
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

39. SEBI से तात्पर्य है :

- (A) शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
- (B) शेयर एक्सचेंज बोर्ड इंस्टीट्यूशन
- (C) सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंस्टीट्यूशन
- (D) सिक्योरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया

40. सेंसेक्स का सूचकांक है।

- (A) BSE
- (B) OTCEI
- (C) NSE
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- | | |
|--|---|
| <p>41. Which of the following is a secondary market?</p> <p>(A) Public issue</p> <p>(B) Right issue</p> <p>(C) Private placement</p> <p>(D) Stock exchange</p> | <p>41. निम्न में से कौन-सा एक द्वितीयक बाजार है?</p> <p>(A) सार्वजनिक निर्गमन</p> <p>(B) राइट निर्गमन</p> <p>(C) निजी प्लेसमेंट</p> <p>(D) स्टॉक एक्सचेंज</p> |
| <p>42. Equity share holders are _____ in a company.</p> <p>(A) Only investors</p> <p>(B) Creditors</p> <p>(C) Employees</p> <p>(D) Owners</p> | <p>42. समता अंशधारक एक कम्पनी में होते हैं।</p> <p>(A) केवल निवेशक</p> <p>(B) लेनदार</p> <p>(C) कर्मचारी</p> <p>(D) मालिक</p> |
| <p>43. Rate of dividend fixed on :</p> <p>(A) Equity share</p> <p>(B) Preference share</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) Neither (A) nor (B)</p> | <p>43. लाभांश की दर पर स्थिर होती है।</p> <p>(A) समता अंश</p> <p>(B) पूर्वाधिकार अंश</p> <p>(C) (A) तथा (B) दोनों</p> <p>(D) (A) तथा (B) दोनों नहीं</p> |
| <p>44. _____ has right to participate in management.</p> <p>(A) Equity shareholders</p> <p>(B) Preference shareholders</p> <p>(C) Debenture holders</p> <p>(D) None of these</p> | <p>44. के पास प्रबंधन में हिस्सा लेने का अधिकार होता है।</p> <p>(A) समता अंशधारक</p> <p>(B) पूर्वाधिकार अंशधारक</p> <p>(C) ऋणपत्रधारक</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
| <p>45. SEBI established in the year _____.</p> <p>(A) 1975</p> <p>(B) 1980</p> <p>(C) 1982</p> <p>(D) 1988</p> | <p>45. सेबी सन् में स्थापित हुई।</p> <p>(A) 1975</p> <p>(B) 1980</p> <p>(C) 1982</p> <p>(D) 1988</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>46. Which of the following is not a/an stock exchange ?</p> <p>(A) BSE</p> <p>(B) OTCEI</p> <p>(C) NSE</p> <p>(D) SEBI</p> | <p>46. निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज नहीं है?</p> <p>(A) BSE</p> <p>(B) OTCEI</p> <p>(C) NSE</p> <p>(D) SEBI</p> |
| <p>47. In passive fund strategy, investors prefer :</p> <p>(A) Safety</p> <p>(B) Return</p> <p>(C) To take risk</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>47. पैसिव फंड रणनीति में, निवेशक प्राथमिकता देता है :</p> <p>(A) सुरक्षा को</p> <p>(B) प्रतिफल को</p> <p>(C) जोखिम लेने को</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>48. Preference shareholders gets preference over equity shareholders for :</p> <p>(A) Repayment of capital</p> <p>(B) Payment of dividend</p> <p>(C) Participate in management</p> <p>(D) Both (A) and (B)</p> | <p>48. पूर्वाधिकार अंशधारक को समता अंशधारक पर प्राथमिकता निम्न के लिए दी जाती है :</p> <p>(A) पूँजी का पुनर्भुगतान</p> <p>(B) लाभांश के भुगतान में</p> <p>(C) प्रबंधन में भागीदारी</p> <p>(D) (A) तथा (B) दोनों</p> |
| <p>49. _____ is not a function of SEBI.</p> <p>(A) To restrict insider trading</p> <p>(B) Issue of securities</p> <p>(C) To provide financial literacy</p> <p>(D) To control activity of brokers</p> | <p>49. सेबी का कार्य नहीं है।</p> <p>(A) इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध</p> <p>(B) प्रतिभूति का निर्गमन</p> <p>(C) वित्तीय शिक्षा प्रदान करना</p> <p>(D) दलालों के कार्यों को नियंत्रित करना</p> |
| <p>50. Right shares can be issued through :</p> <p>(A) Money market</p> <p>(B) Secondary market</p> <p>(C) Primary market</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>50. अधिकार अंश का निर्गमनमें होता है।</p> <p>(A) मुद्रा बाजार</p> <p>(B) द्वितीयक बाजार</p> <p>(C) प्राथमिक बाजार</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |

- | | |
|---|--|
| 51. Future, Forward and options are types of _____. | 51. Future, Forward एवं options के प्रकार हैं। |
| (A) Stocks | (A) Stocks |
| (B) Derivatives | (B) Derivatives |
| (C) Bonds | (C) Bonds |
| (D) None of the above | (D) उपरोक्त में से कोई नहीं |
| 52. _____ is issued of a price less than its face value. | 52. को उसकी फेस वैल्यू से कम कीमत पर जारी किया जाता है। |
| (A) Call money | (A) कॉल मनी |
| (B) Commercial bill | (B) वाणिज्यिक बिल |
| (C) Treasury bill | (C) ट्रेजरी बिल |
| (D) Commercial paper | (D) वाणिज्यिक प्रपत्र |
| 53. _____ was the first Indian company to issue GDR. | 53. प्रथम भारतीय कम्पनी थी जिसने GDR जारी किए थे। |
| (A) State Bank of India | (A) State Bank of India |
| (B) Reliance Industries Limited | (B) Reliance Industries Limited |
| (C) GAIL (India) Ltd. | (C) GAIL (India) Ltd. |
| (D) Aditya Birla Capital | (D) Aditya Birla Capital |
| 54. BSE established in the year : | 54. BSE वर्ष में स्थापित हुआ था। |
| (A) 1872 | (A) 1872 |
| (B) 1935 | (B) 1935 |
| (C) 1875 | (C) 1875 |
| (D) 1949 | (D) 1949 |
| 55. All of the following are parts of financial market except : | 55. निम्न सभी वित्तीय बाजार का भाग है, सिवाय : |
| (A) IPO | (A) IPO |
| (B) PUT | (B) PUT |
| (C) Hedge | (C) Hedge |
| (D) KPO | (D) KPO |

56. _____ is the first to introduce mutual fund in India.

- (A) UTI
- (B) SBI
- (C) LIC
- (D) ICICI

57. ICICI stands for :

- (A) Industrial Corporation for Institutional Credit in India
- (B) Industrial Credit and Investment Corporation of India
- (C) Institutional Credit and Industrial Corporation in India
- (D) None of the above

58. IFCI was established in the year _____.

- (A) 1964
- (B) 1955
- (C) 1949
- (D) 1948

59. Imperial Bank of India was renamed as :

- (A) State Bank of India
- (B) Punjab National Bank
- (C) Indian Bank
- (D) Bank of Baroda

60. _____ provides fixed interest rate over a specified period.

- (A) Stock
- (B) Mutual fund
- (C) Bond
- (D) Equity

56. भारत में म्यूचुअल फंड निर्गमन करने वाली पहली संस्था थी।

- (A) UTI
- (B) SBI
- (C) LIC
- (D) ICICI

57. ICICI से तात्पर्य है :

- (A) इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन इंडिया
- (B) इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया
- (C) इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एण्ड इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन इन इंडिया
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

58. IFCI की स्थापना वर्ष में हुई।

- (A) 1964
- (B) 1955
- (C) 1949
- (D) 1948

59. इम्पिरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर कर दिया गया।

- (A) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- (B) पंजाब नेशनल बैंक
- (C) इंडियन बैंक
- (D) बैंक ऑफ बड़ौदा

60. एक दी हुई अवधि में स्थायी ब्याज दर प्रदान करता है।

- (A) स्टॉक
- (B) म्यूचुअल फंड
- (C) बॉण्ड
- (D) इक्विटी

61. _____ is an example of capital market instruments.
- (A) Treasury bills
(B) Corporate bonds
(C) Call money
(D) All of the above
62. _____ has the highest claim on company assets and profit.
- (A) Preference shares
(B) Debentures
(C) Equity shares
(D) Bonds
63. _____ does not have fixed rate of return.
- (A) Equity shares
(B) Bonds
(C) Preference shares
(D) Debentures
64. _____ will get dividend arrears from future profits.
- (A) Equity shares
(B) Preference shares
(C) Cumulative preference shares
(D) Redeemable preference shares
65. AMC in financial market stands for :
- (A) American Management Corporation
(B) Asset Management Company
(C) Association of Management Consultants
(D) None of the above
61. पूँजी बाजार का उपकरण है।
- (A) ट्रेजरी बिल
(B) निगमिय बांड
(C) कॉल मनी
(D) उपरोक्त सभी
62. का कम्पनी की सम्पत्ती एवं लाभ पर अधिकतम दावा होता है।
- (A) पूर्वाधिकार अंश
(B) ऋणपत्र
(C) समता अंश
(D) बॉण्ड्स
63. की प्रतिफल दर स्थायी नहीं होती।
- (A) समता अंश
(B) बॉण्ड्स
(C) पूर्वाधिकार अंश
(D) ऋणपत्र
64. को लाभांश का बकाया भविष्य के लाभ में से मिलता है।
- (A) समता अंश
(B) पूर्वाधिकार अंश
(C) संचयी पूर्वाधिकार अंश
(D) शोध्य पूर्वाधिकार अंश
65. वित्तीय बाजार में AMC से तात्पर्य है :
- (A) अमेरिकन मैनेजमेण्ट कापोरेशन
(B) असेट मैनेजमेंट कम्पनी
(C) एसोसियशन ऑफ मैनेजमेण्ट कंसलटेन्ट
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- | | |
|---|---|
| <p>66. _____ is mainly used by finance companies.</p> <p>(A) Shelf prospectus</p> <p>(B) Deemed prospectus</p> <p>(C) Red-Herring prospectus</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>66. मुख्यतः वित्तीय कम्पनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है।</p> <p>(A) शेल्फ प्रास्पेक्टस</p> <p>(B) डिम्ड प्रास्पेक्टस</p> <p>(C) रेड-हीरिंग प्रास्पेक्टस</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>67. Headquarter of NSE is at :</p> <p>(A) New Delhi</p> <p>(B) Hyderabad</p> <p>(C) Mumbai</p> <p>(D) Kolkata</p> | <p>67. NSE का मुख्यालय में स्थित है।</p> <p>(A) नई दिल्ली</p> <p>(B) हैदराबाद</p> <p>(C) मुम्बई</p> <p>(D) कोलकाता</p> |
| <p>68. _____ is the oldest stock exchange in Asia.</p> <p>(A) BSE</p> <p>(B) Shanghai stock exchange</p> <p>(C) OTCEI</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>68. एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।</p> <p>(A) BSE</p> <p>(B) शंघाई स्टॉक एक्सचेंज</p> <p>(C) OTCEI</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>69. _____ was established to promote small and medium enterprises.</p> <p>(A) BSE</p> <p>(B) NSE</p> <p>(C) OTCEI</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>69. की स्थापना छोटे तथा मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए की गई।</p> <p>(A) BSE</p> <p>(B) NSE</p> <p>(C) OTCEI</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>70. _____ has the largest number of listed companies.</p> <p>(A) BSE</p> <p>(B) NSE</p> <p>(C) OTCEI</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>70. के अंतर्गत सूचिबद्ध कम्पनियों की संख्या सर्वाधिक है।</p> <p>(A) BSE</p> <p>(B) NSE</p> <p>(C) OTCEI</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |

71. _____ is not considered for fundamental analysis .

- (A) Company's financial wealth
- (B) Industry trend
- (C) Historical stock prices
- (D) Macroeconomic factors

72. _____ is not focus of technical analysis.

- (A) Price patterns
- (B) Trading volume
- (C) Moving average
- (D) Company financial wealth

73. _____ is responsible for maintaining records of securities in demat form.

- (A) Stock exchange
- (B) Depositories
- (C) SEBI
- (D) None of the above

74. _____ is not a depository in India.

- (A) NSDL
- (B) CDSL
- (C) BSE
- (D) All of the above

75. _____ is advantage of demat trading.

- (A) Reduce paper work
- (B) Increased risk of loss
- (C) United access to securities
- (D) All of the above

71. मौलिक विश्लेषण के अंतर्गत का अध्ययन नहीं होता।

- (A) कम्पनी की वित्तीय सम्पत्ति
- (B) औद्योगिक प्रवृत्ति
- (C) ऐतिहासिक स्टॉक कीमतें
- (D) समष्टि अर्थिक कारक

72. तकनीकी विश्लेषण के अंतर्गत पर ध्यान नहीं दिया गया।

- (A) कीमत प्रवृत्ति
- (B) व्यापारिक मात्रा
- (C) मूविंग एवरेज
- (D) कम्पनी की वित्तीय क्षमता

73. प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में रिकार्ड में रखने के लिए उत्तरदायी है।

- (A) स्टॉक एक्सचेंज
- (B) डिपॉजिटरी
- (C) सेबी
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

74. भारत में एक डिपॉजिटरी नहीं हैं।

- (A) NSDL
- (B) CDSL
- (C) BSE
- (D) उपरोक्त सभी

75. डीमैट ट्रेडिंग का लाभ है।

- (A) कम कागजी कार्यवाही
- (B) हानि का जोखिम अधिक
- (C) प्रतिभूतियों पर पहुँच सीमित
- (D) उपरोक्त सभी

- | | |
|---|---|
| <p>76. OTCEI Headquarter is at :</p> <p>(A) New Delhi</p> <p>(B) Kolkata</p> <p>(C) Mumbai</p> <p>(D) Chennai</p> | <p>76. OTCEI मुख्यालय में स्थित है।</p> <p>(A) नई दिल्ली</p> <p>(B) कोलकाता</p> <p>(C) मुम्बई</p> <p>(D) चेन्नई</p> |
| <p>77. NCLAT stands for :</p> <p>(A) National Corporate Law Authorized Tribunal</p> <p>(B) National Company Law Appellate Tribunal</p> <p>(C) National Company Law Authorized Tribunal</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>77. NCLAT से तात्पर्य है।</p> <p>(A) नेशनल कॉर्पोरेट ला अथोराइज्ड ट्रिबुनल</p> <p>(B) नेशनल कम्पनी ला अपिलेट ट्रिबुनल</p> <p>(C) नेशनल कम्पनी ला अथोराइज्ड ट्रिबुनल</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>78. _____ is responsible for administration of NCLT.</p> <p>(A) Ministry of finance</p> <p>(B) Ministry of commerce and industry</p> <p>(C) Ministry of corporate affairs</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>78. NCLT के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है।</p> <p>(A) वित्त मंत्रालय</p> <p>(B) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय</p> <p>(C) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>79. Bonus issue is the issue of :</p> <p>(A) New shares to public</p> <p>(B) New shares to existing shareholders without consideration</p> <p>(C) New shares to existing shareholders</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>79. बोनस निर्गमन से तात्पर्य को निर्गमन से है।</p> <p>(A) नए अंशों के जनता</p> <p>(B) नए अंशों के बिना प्रतिफल पुराने अंशधारकों</p> <p>(C) नए अंशों को पुराने अंशधारकों</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p> |
| <p>80. _____ regulates demat trading in India.</p> <p>(A) RBI</p> <p>(B) SEBI</p> <p>(C) IRDAI</p> <p>(D) Stock Exchange</p> | <p>80. भारत में डीमैट ट्रेडिंग का नियामक है।</p> <p>(A) RBI</p> <p>(B) SEBI</p> <p>(C) IRDAI</p> <p>(D) स्टॉक एक्सचेंज</p> |

81. OTCEI established in :
 (A) 1988
 (B) 1992
 (C) 1990
 (D) 1995
82. In stock valuation, WAMC means :
 (A) Weighted Actual Market Capitalisation
 (B) Weighted Average Market Capitalisation
 (C) Weighted Asset Market Capital
 (D) None of the above
83. CDSL stands for :
 (A) Central Depository Services Limited
 (B) Central Depository Securities Limited
 (C) Corporate Deposit Securities Limited
 (D) None of the above
84. _____ was often referred to as the "Big Bull of India".
 (A) Dhirubai Ambani
 (B) Harshad Mehta
 (C) Rakesh Jhunjhunwala
 (D) None of the above
85. Securities Appellate Tribunal established in India in the year :
 (A) 1990
 (B) 1992
 (C) 1994
 (D) 1997

81. OTCEI वर्ष में स्थापित हुई।
 (A) 1988
 (B) 1992
 (C) 1990
 (D) 1995
82. स्टॉक मूल्यांकन के अंतर्गत, WAMC से तात्पर्य है:
 (A) वेटेड एक्चुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन
 (B) वेटेड एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन
 (C) वेटेड एसेट मार्केट कैपिटल
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
83. CDSL से तात्पर्य है :
 (A) सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड
 (B) सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड
 (C) कॉर्पोरेट डिपॉजिट सिक्योरिटी लिमिटेड
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
84. को "Big Bull of India" के रूप में जाना जाता है।
 (A) धीरूबाई अम्बानी
 (B) हर्षद मेहता
 (C) राकेश झुनझुनवाला
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
85. भारत में "Securities Appellate Tribunal" की स्थापना वर्ष में हुई।
 (A) 1990
 (B) 1992
 (C) 1994
 (D) 1997

86. ETF stands for :
- (A) Exchange –Traded Fund
(B) Electronic – Traded Fund
(C) Exchange – Transfer Fund
(D) None of the above
87. _____ is a money market instrument which may be used by Banks to maintain CRR.
- (A) Commercial paper
(B) Trade bill
(C) Treasury bill
(D) Call money
88. NSE established in India in the year _____.
- (A) 1988
(B) 1990
(C) 1992
(D) 1994
89. NSDL stands for :
- (A) New Securities Depository Limited
(B) National Securities Depository Limited
(C) National Securities dematerialization Limited
(D) None of the above
90. _____ is a Blue Chip company.
- (A) SBI
(B) GAIL
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above

86. ETF से तात्पर्य है।
- (A) एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड
(B) इलक्ट्रानिक ट्रेडेड फण्ड
(C) एक्सचेन्ज ट्रांसफर फण्ड
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
87. बैंक द्वारा CRR को बनाए रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मुद्रा बाजार उपकरण है।
- (A) वाणिज्यिक प्रपत्र
(B) व्यापारिक बिल
(C) ट्रेजरी बिल
(D) कॉल मनी
88. भारत में NSE वर्ष में स्थापित हुआ।
- (A) 1988
(B) 1990
(C) 1992
(D) 1994
89. NSDL से तात्पर्य है :
- (A) न्यू सिक्क्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड
(B) नेशनल सिक्क्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड
(C) नेशनल सिक्क्योरिटी डिमाटिरियालाइजेशन लिमिटेड
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
90. एक ब्लू-चीप कम्पनी है।
- (A) SBI
(B) GAIL
(C) (A) तथा (B) दोनों
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

91. IDBI stands for :
- (A) Industrial Development Bank Institutions
- (B) Industrial Development Bank of India
- (C) Indian Development Bank Industry
- (D) None of the above
92. _____ is not a participant in the money market.
- (A) Investors
- (B) Borrowers
- (C) Stock Exchanges
- (D) Financial Institutions
93. AMFI stands for :
- (A) Association of Mutual Funds in India
- (B) Association of Mutual Fund Industry
- (C) Association of Mutual Fund Institutions
- (D) None of the above
94. ICICI was established in the year :
- (A) 1948
- (B) 1949
- (C) 1955
- (D) 1964
95. A company cannot issue :
- (A) Redeemable equity shares
- (B) Redeemable preference shares
- (C) Redeemable debentures
- (D) None of the above

91. IDBI से तात्पर्य है :
- (A) इंडस्ट्रीयल डिवलपमेन्ट बैंक इस्टीट्यूट्स
- (B) इंडस्ट्रीयल डिवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया
- (C) इण्डियन डेवलपमेन्ट बैंक इंडस्ट्री
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
92. मुद्रा बाजार का एक प्रतिभागी नहीं है।
- (A) निवेशक
- (B) कर्जदार
- (C) स्टॉक एक्सचेंज
- (D) वित्तीय संस्थाएं
93. AMFI से तात्पर्य है :
- (A) एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फण्ड इन इंडिया
- (B) एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फण्ड इंडस्ट्री
- (C) एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फण्ड इंडस्ट्रीट्यूसन्स
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
94. ICICI वर्ष में स्थापित हुआ।
- (A) 1948
- (B) 1949
- (C) 1955
- (D) 1964
95. एक कम्पनी नहीं निर्गमित कर सकती।
- (A) शोध्य समता अंश
- (B) शोध्य पूर्वाधिकार अंश
- (C) शोध्य ऋणपत्र
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- | | |
|---|---|
| 96. Monetary Policy of RBI consist all except : | 96. रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति में सभी सम्मिलित है, सिवाय : |
| (A) Repo rate | (A) रेपो दर |
| (B) Bank rate | (B) बैंक दर |
| (C) Taxes | (C) कर |
| (D) CRR | (D) CRR |
| 97. Capital market deals with all except : | 97. पूँजी बाजार में सभी का लेन-देन होता है, सिवाय : |
| (A) Equity share | (A) समता अंश |
| (B) Zero coupon bonds | (B) जीरो कूपन बांड्स |
| (C) Debenture | (C) ऋणपत्र |
| (D) Bonds | (D) बांड्स |
| 98. ELSS stands for : | 98. ELSS से तात्पर्य है : |
| (A) Employee Linked Saving Scheme | (A) इम्प्लॉई लिंकड सेविंग स्कीम |
| (B) Equity Linked Security Scheme | (B) इक्विटी लिंकड सिक्योरिटी स्कीम |
| (C) Equity Linked Saving Scheme | (C) इक्विटी लिंकड सेविंग स्कीम |
| (D) None of the above | (D) उपरोक्त में से कोई नहीं |
| 99. _____ is not a part of capital market. | 99. पूँजी बाजार का भाग नहीं है। |
| (A) Money market | (A) मुद्रा बाजार |
| (B) Primary market | (B) प्राथमिक बाजार |
| (C) Secondary market | (C) द्वितीयक बाजार |
| (D) Stock exchange | (D) स्टॉक एक्सचेंज |
| 100. ULIP stands for : | 100. ULIP से तात्पर्य है : |
| (A) Unit Linked Investment Plan | (A) यूनिट लिंकड इन्वेस्टमेन्ट प्लान |
| (B) United Linked Investment Plan | (B) यूनाइटेड लिंकड इन्वेस्टमेन्ट प्लान |
| (C) Unit Linked Insurance Plan | (C) यूनिट लिंकड इंश्योरेन्स प्लान |
| (D) None of the above | (D) उपरोक्त में से कोई नहीं |

Rough Work / रफ कार्य

Example :

Question :

Q.1 (A) ● (C) (D)

Q.2 (A) (B) ● (D)

Q.3 (A) ● (C) (D)

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer Sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination, candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager & cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ● (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ● (D)

प्रश्न 3 (A) ● (C) (D)

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैल्कुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण: प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरिज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।